



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 252] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 4, 1973/आश्विन 12, 1895
 No. 252] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 4, 1973/ASVINA 12, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
 as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 4th October, 1973

G. S. R. 470(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts sugar described in column (2) of the Table below and falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) from so much of the duty of excise leviable thereon as is specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Description of Sugar	Duty of excise
1	2	3
1	Sugar produced in a factory during the period commencing from the 1st day of October, 1973 and ending with the 30th day of November, 1973 which is in excess of the quantity of sugar produced during the corresponding period in 1972.	Forty rupees per quintal.

1	2	3
2	Sugar produced in a factory during the period commencing from the 1st day of December, 1973 and ending with the 30th day of April, 1974 which is in excess of 110 per cent of the quantity of sugar produced during the period commencing from the 1st day of December, 1972 and ending with the 30th day of April, 1973.	Twenty rupees per quintal.
3	Sugar produced in a factory during the period commencing from the 1st day of May, 1974 and ending with the 30th day of June, 1974 which is in excess of 110 per cent of the quantity of sugar produced during the corresponding period in 1973.	Thirty rupees per quintal.
4	Sugar produced in a factory during the period commencing from the 1st day of July, 1974 and ending with the 30th day of September, 1974 which is in excess of 110 per cent of the quantity of sugar produced during the corresponding period in 1973.	Twenty rupees per quintal.
5	Sugar produced during the period commencing from the 1st day of October, 1973 and ending with the 23rd day of September, 1974, by a factory which commenced production on or after the 1st day of October, 1972, which is in excess of ten thousand metric tonnes.	Thirty rupees per quintal.
6	Sugar produced during the period commencing from the 1st day of October, 1973 and ending with the 30th day of September 1974, by a factory which commenced production for the first time on or after the 1st day of October, 1973 which is in excess of five thousand metric tonnes.	Thirty rupees per quintal.

Provided that the exemption mentioned against serial numbers 1 to 4 of the said Table shall not be admissible to a factory which did not work during the base period.

2. In computing the production of sugar during the periods mentioned in column (2) of the said Table—

(a) in respect of a factory mentioned in the said Table—

- (i) the data, as furnished in Form R. G. 1 prescribed in Appendix I to the Central Excise Rules, 1944, or in such other record as the Collector may prescribe under rule 53 or rule 173-G of the said rules, shall be adopted; and
 - (ii) any sugar obtained by refining gur or khandsari sugar shall not be taken into account;
- (b) in respect of a factory mentioned in serial numbers 1 to 4 of the said Table—
- (i) any sugar obtained by reprocessing of sugar-house products left over in process at the end of the base period or earlier shall be taken into account; and
 - (ii) any sugar obtained by reprocessing of defective or damaged sugar or brown sugar if the same has already been included in the quantity of sugar produced, shall not be taken into account.

Explanation.—In this notification, the expression “base period” means the period commencing from the 1st day of October, 1972, and ending with the 30th day of September, 1973.

[No. 189/73]

S. R. NARAYANAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

प्रधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 1973

सां. कां. निं. 470 (प्र).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निम्न सारणी के

स्तम्भ (2) में वर्णित, और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 1 की उपमद संख्या (1) के अधीन आने वाली शर्करा को उस पर उद्ग्रहणीय उत्तम उत्पाद शुल्क से, जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, छूट देती है।

सारणी

क्रम सं०	शर्करा का वर्णन	उत्पाद शुल्क
1	2	3
1	1 अक्टूबर, 1973 से प्रारम्भ होने वाली और 30 नवम्बर, 1973 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कारखाने में उत्पादित शर्करा, जो 1972 की तत्स्थानी अवधि के दौरान उत्पादित शर्करा के परिमाण से आधिक्य में हो।	चालीस रुपये प्रति क्विंटल
2	1 दिसम्बर, 1973 से प्रारम्भ होने वाली और 30 अप्रैल 1974 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कारखाने में उत्पादित शर्करा, जो 1 दिसम्बर, 1972 से प्रारम्भ होने वाली और 30 अप्रैल, 1973 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उत्पादित शर्करा के परिमाण के 110 प्रतिशत से आधिक्य में हो।	बीस रुपये प्रति क्विंटल
3	1 मई, 1974 से प्रारम्भ होने वाली और 30 जून, 1974 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कारखाने में उत्पादित शर्करा, जो 1973 की तत्स्थानी अवधि के दौरान उत्पादित शर्करा के परिमाण के 110 प्रतिशत से आधिक्य में हो।	तीस रुपये प्रति क्विंटल
4	1 जुलाई, 1974 से प्रारम्भ होने वाली और 30 सितम्बर, 1974 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कारखाने में उत्पादित शर्करा, जो 1973 की तत्स्थानी अवधि के दौरान उत्पादित शर्करा के परिमाण के 110 प्रतिशत से आधिक्य में हो।	बस हाए प्रति क्विंटल
5	1 अक्टूबर, 1973 से प्रारम्भ होने वाली और 30 सितम्बर, 1974 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उस कारखाने द्वारा जिसने 1 अक्टूबर, 1972 को या उसके पश्चात् उत्पादन शुरू किया था, उत्पादित शर्करा, जो दस हजार मीटरी टन से आधिक्य में हो।	तीस रुपये प्रति क्विंटल

1	2	3
6	1 अक्टूबर, 1973 से प्रारम्भ होने वाली और 30 सितम्बर, 1974 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उस कारखाने द्वारा, जिसने 1 अक्टूबर, 1973 को या उसके पश्चात् पहली बार उत्पादन शुरू किया हो, उत्पादित शर्करा, जो पांच हजार मीटरी टन से अधिक्य में हो।	तीस रुपये प्रति कि्वटल

परन्तु उक्त सारणी की क्रम संख्या 1 से 4 के सामने उल्लिखित छूट उस कारखाने को अनुदेय नहीं होगी जिसने आधारी अवधि के दौरान काम नहीं किया था।

2. उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अवधियों के दौरान शर्करा के उत्पादन की संगणना करने में,—

(क) उक्त सारणी में उल्लिखित कारखाने की बाबत,—

(i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के परिशिष्ट 1 में विहित प्ररूप आर० जी० 1 में या ऐसे अन्य अभिलेख में जो कलक्टर, उक्त नियमों के नियम 53 या नियम 173-छ के अधीन विहित करे, दी गई आधार सामग्री संगीकृत की जाएगी।

(ii) गुड़ या खंडसारी शर्करा के परिष्करण द्वारा अधिप्राप्त कोई शर्करा हिसाब में नहीं ली जाएगी।

(ख) उक्त सारणी की क्रम संख्या 1 से 4 में उल्लिखित कारखाने की बाबत,—

(i) आधारी अवधि की समाप्ति पर या उसके पहले, शर्करा विनिर्माण प्रक्रिया में छोड़ दिए गए उत्पादों की पुनः प्रक्रिया से अभिप्राप्त कोई शर्करा हिसाब में ली जाएगी; और

(ii) पुनः प्रक्रिया द्वारा, उस दशा में हिसाब में नहीं लिया जाएगा जब कि खराब या बिगड़ी हुई अथवा भूरी शर्करा से अभिप्राप्त कोई शर्करा उससे उत्पादित शर्करा के परिमाण में पहले ही सम्मिलित की गई हो।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना में "आधारी अवधि" पद से 1 अक्टूबर, 1972 से प्रारम्भ होने वाली और 30 सितम्बर, 1973 को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है।

[सं० 189/73]

एस० आर० नारायणन, अवर सचिव।